

RBI द्वारा एकीकृत ऋण इंटरफेस की शुरुआत

स्रोत: द हद्वि

भारतीय रजिस्टर बैंक (Reserve Bank of India- RBI) भारत के ऋण क्षेत्र को बदलने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर **यूनफाइड लेंडिंग इंटरफेस (Unified Lending Interface- ULI)** शुरू करने की योजना बना रहा है। ULI को RBI ने 2023 में **पायलट प्रोजेक्ट** के तौर पर लॉन्च किया था।

एकीकृत लेंडिंग इंटरफेस (ULI) क्या है?

- **परिचय:** ULI एक **डिजिटल प्लेटफॉर्म** है, जिससे ऋण देने की **प्रक्रिया आसान** होने की उम्मीद है।
 - इससे किसानों और **MSME उधारकर्ताओं** को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हुए, बिना किसी बाधा के **ऋण उपलब्ध कराया** जा सकेगा।
- **ULI की मुख्य विशेषताएँ:**
 - **सहमत-आधारित डिजिटल पहुँच:** ULI सहमत-आधारित प्रणाली के माध्यम से ऋणदाताओं को **भूमि रिकॉर्ड** सहित ग्राहकों के **वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों डेटा** तक डिजिटल पहुँच प्रदान करेगा।
 - **सामान्य और मानकीकृत API:** ULI में मानकीकृत **एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (Application Programming Interface- API)** की सुविधा होगी जो **'प्लग एंड प्ले'** दृष्टिकोण की अनुमति देगा, डेटा एक्सेस को सरल करेगा और तकनीकी जटिलता को कम करेगा।
 - **'प्लग एंड प्ले'** अवधारणा से तात्पर्य **बजिली, नेटवर्क** जैसी आवश्यक अवसंरचना के साथ तैयार सुविधाओं से है, जो उद्योगों को तुरंत परिचालन शुरू करने की अनुमति देती है।
- **संभावित लाभ:**
 - **बाधा रहित ऋण:** ULI का लक्ष्य कागज़ी कार्रवाई को न्यूनतम करके, **वर्षेय रूप से छोटे और ग्रामीण उधारकर्ताओं के लिये नरिबाध ऋण देने** का अनुभव प्रदान करना है।
 - **मूल्यांकन समय में कमी:** विभिन्न स्रोतों से डेटा को समेकित करके, ULI क्रेडिट मूल्यांकन के लिये आवश्यक **समय को कम कर देगा**।
 - **केंद्रीकृत डेटा एक्सेस:** यह प्लेटफॉर्म कई स्रोतों से वित्तीय और गैर-वित्तीय डेटा को **एकीकृत करेगा**, जिससे यह ऋणदाताओं के लिये आसानी से उपलब्ध हो जाएगा।
 - **कृषि और MSME पर ध्यान:** ULI से कृषि और **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME)** जैसे क्षेत्रों में ऋण की **बढ़ी व अधूरी मांग को पूरा करने की उम्मीद है**।
- **अन्य डिजिटल पहलों से संबंध:**
 - **JAM-UPI-ULI:** ULI, JAM (जन धन, आधार और मोबाइल), **UPI** और ULI की **'न्यू ट्रिनिटी'** का हिस्सा होगा, जो भारत के डिजिटल अवसंरचना में एक महत्वपूर्ण प्रगतिका प्रतिनिधित्व करता है।
 - **डिजिटल अवसंरचना:** इन प्रणालियों के एकीकरण का उद्देश्य ऋण की **बढ़ी व अधूरी मांग को पूरा करना और वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है**।

भारत में ऋण सुविधा प्रदान करने वाले अन्य प्लेटफॉर्म कौन-से हैं?

- **सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री (PCR):** **PCR** एक केंद्रीय डेटाबेस है, जो ऋणदाताओं को ऋण योग्यता का आकलन करने और ऋण बाज़ार में सूचना विषमता को कम करने में सहायता लिये उधारकर्ताओं की व्यापक ऋण जानकारी संग्रहीत करता है।
- **अकाउंट एग्रीगेटर (AA) फ्रेमवर्क:** **AA फ्रेमवर्क** एक सहमत-आधारित **RBI-वर्णित प्लेटफॉर्म** है, जो ग्राहकों को अपनी **वित्तीय जानकारी** को विभिन्न संस्थानों में साझा करने, ऋणदाताओं के लिये पहुँच को सुव्यवस्थित करने एवं उचित ऋण निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
- **क्रेडिट सूचना कंपनियाँ (CIC):** **CIBIL, इक्विफैक्स, एक्सपेरियन** आदि जैसी कंपनियाँ व्यक्तियों और व्यवसायों की **क्रेडिट सूचनाएँ** एकत्र करती हैं तथा उसका रखरखाव करती हैं।
- **ट्रेड रसिदेबल्स डिसकाउंटिंग सिस्टम (TReDS):** TReDS एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, जो MSME को प्रतिस्पर्धी दरों पर अपने व्यापार प्राप्तियों की नीलामी करने की अनुमति देता है।
- **Peer-to-Peer (P2P) लेंडिंग प्लेटफॉर्म:** फेयरसेट और लेंडबॉक्स जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म व्यक्तियों को एक-दूसरे से सीधे पैसे उधार देने और उधार लेने की अनुमति देते हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????????

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सा उपवाक्य, उत्तर-हरष-कालीन स्रोतों में प्रायः उल्लखिति 'हुंडी' के स्वरूप की परभाषा बताता है ? (2020)

- (a) राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श
- (b) प्रतदिनि का लेखा-जोखा अंकति करने वाली बही
- (c) वनिमिय पत्र
- (d) सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश

उत्तर: (c)

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजिए : (2020)

1. कृषिक्षेत्र को अल्पकालीन साख परदिन करने के संदर्भ में, 'ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCBs)' 'अनुसूचति वाणजियकि बैंकों' एवं 'क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों' की तुलना में अधिक ऋण देते हैं।
2. डी.सी.सी.बी. (DCCBs) का एक सबसे प्रमुख कार्य 'प्राथमकि कृषिसाख समतियों' को नधि उपलब्ध कराना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rbi-to-launch-unified-lending-interface>

